

पीडीआईएल में 70वां गणतंत्र दिवस समारोह

प्रोजेक्ट्स एंड डेवलपमेंट इंडिया लिमिटेड (पीडीआईएल), मिनी रत्न श्रेणी- I उर्वरक विभाग, रसायन और उर्वरक मंत्रालय, भारत सरकार के नियंत्रणाधीन भारत सरकार के उपक्रम के नोएडा स्थित निगमित कार्यालय में 26 जनवरी 2019 को राष्ट्रक का 70वां गणतंत्र दिवस मनाया गया। कार्यक्रम का आरंभ श्री पार्थ सारथी सेन शर्मा (भा.प्र.से.) अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक द्वारा वरिष्ठ अधिकारियों, कर्मचारियों एवं उनके परिवारों की उपस्थिति में राष्ट्रीय ध्वज फहराने से हुआ।

इस अवसर पर अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक ने अपने सम्बोधन में राष्ट्र के सभी शहीदों को श्रद्धांजलि अर्पित की एवं पीडीआईएल के कर्मिकों एवं उनके परिवार को शुभकामनाएं दी। अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक ने वर्ष 2018-19 के लिए निर्धारित 110 करोड़ रुपये के लक्ष्यो को 9 महीने में प्राप्त करते हुए 110.43 करोड़ रुपये का व्यय प्राप्त करने एवं वर्ष 2017-18 के एमओयू में बहुत अच्छा मानक अंक प्राप्त करने पर बधाई दी। अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक ने पीडीआईएल के कर्मिकों को भी गोरखपुर, सिंदरी, बरौनी और तालचर स्थित राष्ट्रीय महत्व की उर्वरक परियोजनाओं को समय पर और गुणवत्तापूर्वक निष्पादित करने के लिए पूरे मनोयोग से काम करने का आह्वान किया। इस अवसर पर सांस्कृतिक कार्यक्रमों का भी आयोजन किया गया जिसमें पीडीआईएल के कर्मिकों एवं उनके बच्चों द्वारा देशभक्ति गीत, नृत्य एवं कविताएं इत्यादि बहुत लगन एवं उत्साहपूर्वक प्रस्तुत की गयी। इस कार्यक्रम में वरिष्ठ अधिकारी कर्मचारी एवं उनके परिवार के सदस्य उपस्थित थे।

पीडीआईएल के वदोदरा एवं सिंदरी कार्यालय में भी गणतंत्र दिवस उत्साहपूर्वक मनाया गया।

70th Republic Day Celebration in PDIL

Projects & Development India Ltd (PDIL), a Mini Ratna Category- I Engineering-Consultancy PSU under Deptt. of Fertilizers (DOF), Ministry of Chemicals & Fertilisers, Govt of India, celebrated Nation's 70th Republic Day on 26th January, 2019 at its Corporate Office at Noida. The event began with unfurling of the National Flag by PDIL's Chairman & Managing Director (CMD) , Sh Partha Sarthi Sen Sharma (IAS). In his address on the occasion, CMD paid tributes to the Martyrs of our Nation and greeted PDIL employees & their families. CMD expressed his happiness on PDIL achieving **business orders worth Rs 110.43 crore** surpassing the Order booking target of Rs 110 crore for 2018-19 in 9 months and obtaining **"Very Good" MoU Rating** for 2017-18. CMD also exhorted PDIL Employees to work whole heartedly to execute Fertilizer Projects of National Importance at Gorakhpur, Sindri, Barauni and Talcher in timely and qualitative manner. Cultural programme was also organized on the occasion wherein Performances of Patriotic fervor - Dance, Songs, Poetry recital, etc were presented by PDIL employees and their children with lot of zeal and enthusiasm. The event was attended by senior officers, employees of PDIL and their families.

PDIL's Vadodara and Sindri Offices also celebrated the Republic day with vigor & enthusiasm

70TH REPUBLIC DAY CELEBRATION AT PDIL





